

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 12—दिसम्बर 18, 2015 (अग्रहायण 21, 1937)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12—DECEMBER 18, 2015 (AGRAHAYANA 21, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली—110003, दिनांक 5 नवम्बर 2015

सं. ए—36024/1/2006—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सदस्य सचिव, को कार्यात्मक योजनाओं का अंतिम रूप देने तथा अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान करता है जोकि दिनांक 09.06.2015 को सम्पन्न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 35वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

शक्तियों का यह प्रत्यायोजन दिनांक 03.07.2015, जोकि बोर्ड की 35वीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का कार्यवृत्त जारी किए जाने की तिथि है, से प्रभावी माना जाएगा।

बी. के. त्रिपाठी
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

New Delhi- 110003, the 5th November 2015

No. A-36024/1/2006-Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), National Capital Region Planning Board hereby delegate the power to Member Secretary of the Board to finalise and approve the Functional Plans, which has been approved in the 35th Meeting of the National Capital Region Planning Board held on 09.06.2015.

This delegation of power shall be deemed to have come into force with effect from the date of issue of the minutes of the 35th meeting of the National Capital Region Planning Board which is 03.07.2015.

B K TRIPATHI
Member Secretary
National Capital Region Planning Board

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2015
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in